

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन में जनपद हमीरपुर में दिनांक- 10.07.2017 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानों में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयीं।

-70 ली कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 10.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्त-श्रीचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज निवासी सरसई को एक जरीकेन में 20 ली शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा में मु0अ0स0-367/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

--दिनांक 10.07.2017 को थाना सिसोलर पुलिस द्वारा अभियुक्त-सीताराम पुत्र मलुआ निवासी बेरी को एक जरीकेन में 10 ली शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा में मु0अ0स0-124/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

-दिनांक 10.07.2017 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त-रामविलाश पुत्र जोहरी निवासी मेरापुर को एक जरीकेन में 40 ली शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा में मु0अ0स0-229/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

नशीले पदार्थ के साथ 01 गिरफ्तार

-दिनांक 10.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा रोहित पुत्र मोहित निवासी देवी चौराह को 60 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया, इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा में मु0अ0स0-369/17 धारा-18/20 ndps एक्ट दर्ज किया गया।

-02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक-10.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 368/17-धारा-363/366/376 भादवि व 3 (2) sc/st एक्ट के वांछित अभियुक्त 1.कलीराम पुत्र विशवराम निवासी सैदपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक-10.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 324/17-धारा-363/366/376 भादवि व 3 (2) sc/st एक्ट के वांछित अभियुक्त 1.सानू पुत्र इसरार निवासी कस्बा राठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 11.07.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 10.07.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हेलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बेल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 35 वाहनो से 8500 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया ।